

दौरा यात्रा भत्ता बिल के साथ संलग्न की जाने वाली प्रमाणपत्र  
**CERTIFICATE TO BE ATTACHED WITH TOUR T.A. BILLS**

प्रमाणित किया जाता है कि/Certified that :-

1. इस बिल में दावा की गई सड़क की दूरी मेरे अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

The road mileage claimed in this bill is correct to the best of my knowledge and belief.

2. जिस स्थान के लिए सड़क मील भत्ते का दावा किया गया है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है ।

The place where road mileage has been claimed are not connected by rail directly or indirectly.

3. बिल में किए गए दावे के अनुसार मैंने जिस श्रेणी से यात्रा किया है, मेरे द्वारा वास्तव में उसका भुगतान रेलवे प्राधिकरण को किया गया ।

I travelled in the class of accommodation as claimed in this bill have been actually paid to the Railway authorities.

4. उपरोक्त यात्रा भत्ता का दावा पहले नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार का कोई ज्ञापन जमा किया है ।

T.A. referred to above has not been claimed before and no such memo submitted.

5. यात्रा के लिए किसी भी सरकारी वाहन के उपयोग की अनुमति नहीं थी, जिसके लिए इस बिल में सड़क मील भत्ते का दावा किया गया है ।

No Government vehicle was permitted to be used for the journey for which road mileage claimed in this bill.

6. मैंने किसी भी सार्वजनिक वाहन, (बोट को छोड़कर) जो नियमित रूप से भाड़े पर निश्चित क्षेत्र में निश्चित दरों पर चलती है, में एकल सीट लेकर सड़क दूरी/यात्रा नहीं की है, जिसके लिए वैकल्पिक नियमावली के नियम 40 में निर्धारित उच्च दरों पर सड़क मील भत्ते का दावा किया है । मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं उनके खर्च प्रभार का भुगतान किए बिना किसी भी अन्य वाहन द्वारा यात्रा नहीं की ।

I did not perform the road mileage/journey for which mileage allowance has been claimed on the high rates prescribed in Rule 40 of SR by taking a single seat in any public conveyance (excluding a steamer) which plies regularly for hire between fixed and charge for fixed rate. I also certify that the journey was not performed by any another conveyance without payment of its charges of using its running expenses.

7. राज्य या केन्द्र साकार का कोई भी स्वायत्तशासी वाणिज्यक उपक्रम या निगम या सांविधिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें सरकार की कोई अन्य रूचि हो, के खर्चों पर कोई भी निशुल्क आवास एवं भोजन का उपयोग नहीं किया है ।

I have not availed any free board and lodging at the expenses of State or Central Government or any autonomous commercial undertaking or Corporation or a statutory body or local authority in which ever and Govt. have any other interest.

8. यात्रा किए गए लाईनों में वापसी टिकट जारी नहीं हुआ तथा जिसके लिए पूर्ण रेल भाड़े का दावा किया गया है ।

Return tickets were not issued on the lines on which journey were performed and for which full return rail fare has been claimed.

9. मैं उक्त अवधि के दौरान शिविर में वास्तव में तथा मात्र रचनात्मक था, जिसके लिए पूर्ण ..... दैनिक भत्ते का दावा किया गया ।

I was not actually and merely constructively in camp during the period for watch full ..... Daily allowance has been claimed.

10. मैं उक्त दिनों में आकस्मिक अवकाश पर नहीं था, जिसके लिए दैनिक भत्तों का दावा किया गया है ।

I was not on casual leave on the days for which daily allowance has been claimed.

11. इस बिल में दर्शाई गई आहरण राशि मेरे लाभ का स्रोत नहीं है ।

The drawal of the amount shown in this bill is not a source of profit to me.

12. मैं दिनांक ..... के ज्ञापन/आदेश सं. .... द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत था । अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम की प्रति संलग्न है ।

I was authorized to travel by Memo/Order No. .... dated ..... A copy of the approved tour programme is enclosed.

स्थान/ Place :

दिनांक/Date :

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर:

**Signature of the Govt. Servant :**

**नाम /Name :**

**पदनाम/Designation :**